



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 383]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 1976/भाद्र 5, 1898

No. 383]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 1976/BHADRA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

*New Delhi, the 25th August 1976*

**S.O. 568(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby appoints the 27th day of August, 1976 as the date on which the said Act shall come into force in respect of employments in factories located in plantations.

**Explanation.**—In this notification the words “factory” and “plantation” shall respectively have the meaning assigned to them in clause (m) of section 2 and section 85 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and clause (f) of Section 2 of the Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951).

[No. S. 42013/10/76-WC]

## श्रम मंत्रालय

## अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1976

का० घा० 568 (अ).—केन्द्रीय सरकार समान वेतन अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगस्त, 1976 के 27वें दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम, बागानों में स्थित कारखानों में नियोजनों के संबंध में लागू होगा।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में “कारखाना” और “बागान” शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए क्रमशः कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खंड (ड) और धारा 85 और बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 69) की धारा 2 के खंड (च) में उद्धृष्ट दिए गए हैं।

[संख्या एस-42013/10/76-डब्ल्यू० सी०]

S.O. 569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby specifies the employments in factories located in plantations for the purpose of constitution of one or more Advisory Committees by the appropriate Government to advise it with regard to the extent to which women may be employed in such employments.

Explanation.—In this notification the words “factory” and “plantation” shall respectively have the meaning assigned to them in clause (m) of section 2 and section 85 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and clause (1) of Section 2 of the Plantations Labour Act, 1951 (69 of 1951).

[No. S. 42013/10/76-WC]

T. S. SANKARAN, Addl. Secy.

का० घा० 569 (अ).—समान वेतन अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बागानों में स्थित कारखानों में नियोजनों को, उचित सरकार द्वारा एक या उससे अधिक सलाहकार समितियाँ गठित करने के प्रयोजन के लिए, निर्दिष्ट करती है, जो इसे इस संबंध में सलाह देगी कि ऐसे नियोजनों में किस सीमा तक महिलाओं को नियोजित किया जाए।

व्याख्या.—इस अधिसूचना में “कारखाना” और “बागान” शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 2 के खण्ड (ड) और धारा 85 तथा बागान श्रम अधिनियम, 1951 (1951 का 59) की धारा 2 के खण्ड (च) में दिए गए हैं।

[संख्या एस-42013/10/76-डब्ल्यू० सी०]

टी० एस० शंकरन, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मंत्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा  
निर्वाहक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976